

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अर्थव्यवस्था को बहाल करने और कम्युनिटी के विकास को मज़बूत बनाने की योजना को मंजूरी दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (9 अप्रैल, 2021) – इस सप्ताह ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, अपनी मीटिंग में [कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान \(Community Improvement Plan\)](#) (सी.आई.पी.) (CIP) को मंजूरी दी, ताकि रोज़गार संबंधी वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सके, लक्षित क्षेत्रों में नए बिल्डिंग विस्तार में मदद की जा सके और ब्रैम्पटन की लोकल अर्थव्यवस्था को मज़बूत बनाया जा सके।

महामारी शुरू होने के बाद से सिटी, लगातार कारोबारी कम्युनिटी की बहाली और लचीलेपन में मदद के लिए प्रतिबद्ध रही है।

पिछले वर्ष, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल ने, सिटी के लिए आगे बढ़ने हेतु फ्रेमवर्क के तौर पर, [इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी \(Economic Recovery Strategy\)](#) की हिमायत की थी। यह कार्यनीति, चार आवश्यक चीज़ों: *इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और एंटरप्रीनियरशिप*, जिसमें उद्यमियों और छोटे कारोबारियों के लिए बेहतर सहयोग शामिल है; *निवेश; कला, संस्कृति और पर्यटन*; और *इंफ्रास्ट्रक्चर* में संगठित की गई है।

सिटी, लगातार निवेश को आकर्षित कर रही है और 2021 की Q1 (पहली तिमाही) में ब्रैम्पटन द्वारा प्राप्त आवेदनों पर योजना बना रही है और 2020 तथा 2019 के पहले तीन माह के मुकाबले, लगभग दुगुना निवेश हुआ है।

उसी गति को कायम रखने के लिए, सी.आई.पी. (CIP) तैयार करना, लोकल अर्थव्यवस्था को बहाल करने और ब्रैम्पटन के प्रतिस्पर्धी लाभ को और बढ़ाने की ओर दूसरा कदम है। ओनटैरियो प्रांत का प्लानिंग एक्ट (Planning Act), लोकल म्युनिसिपल्टीज को अनुमति देता है कि वे कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट एरिया (Community Improvement Project Area) के तौर पर एक ऐसा क्षेत्र नियत करें, जो रोज़गार संबंधी अवसर और सुविधाएं उत्पन्न करने के लिए निजी क्षेत्र को, आर्थिक और गैर-आर्थिक पहलकदमियां पेश करता हो, जो विकासशील सिटी के लिए आवश्यक हैं।

सी.आई.पी. के अंतर्गत पेश किए जाने वाले संभावी टूल्स में शुरुआती इंसेंटिव, टैक्स इंक्रीमेंट इक्विवलेंट ग्रांट (टी.आई.ई.जी.) (Tax Increment Equivalent Grant) (TIEG) होगी, जिसका उद्देश्य रिसर्च और लैब संबंधी जगह जैसे सहायक प्रयोगों सहित ऑफिस रोज़गार को आकर्षित करना है। टी.आई.ई.जी. (TIEG), कारोबार के मालिक को प्रॉपर्टी टैक्स वृद्धि के एक हिस्से का मुआवजा देने के लिए, ग्रांट या छूट है।

इसके अलावा, पूरे शहर में ऑफिस रोज़गार के लिए टी.आई.ई.जी. लागू करके, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन अपने मेजर ऑफिस प्रोग्राम (Major Office Program) के द्वारा पेश किए जाने वाले रीजन के टी.आई.ई.जी. तक पहुंच के योग्य होगी, जिसकी 2021 में शुरू होने की संभावना है। बढ़िया किस्म की ऑफिस जगह के लिए प्रोजेक्ट्स में निवेश को बढ़ाने के साथ भी, “संपूर्ण कम्युनिटीज” का वातावरण विकसित होता है, जहां निवासी रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और सीख सकते हैं।

सिटी के स्टाफ को 2021 की Q2 (दूसरी तिमाही) और Q3 (तीसरी तिमाही) के दौरान सी.आई.पी. तैयार करने और इसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। सिटी, इस वर्ष के अंत में कानूनी पब्लिक मीटिंग रखेगी और फाइनल सी.आई.पी. को, समीक्षा और टिप्पणी के लिए, ओनटैरियो मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स एंड हाउसिंग (Ontario Ministry of Municipal Affairs and Housing) को भेजा जाएगा। सी.आई.पी. के Q4 (चौथी तिमाही) के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

सी.आई.पी. तय समय के लिए पेश किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित तौर पर इसकी समीक्षा की जाएगी कि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की रोजगार संबंधी जरूरतों के लक्ष्य और उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। सी.आई.पी., “[अवसरों का शहर](#)” (“[City of Opportunities](#)”) के तौर पर टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटीज (Term of Council Priorities) के मुताबिक भी होगा।

सी.आई.पी. का उद्देश्य, इसके मुख्य क्षेत्रों: इनोवेशन और टेक्नोलॉजी; एंटरप्रीनियरशिप; हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज; और एडवांस्ड मेन्युफेक्चरिंग में अतिरिक्त रोजगार को आकर्षित करना है। ब्रैम्पटन में मौजूद मार्केट स्थितियां, इस प्रत्येक क्षेत्र में नए निर्माण कार्य में लगातार निवेश की हिमायत करती हैं।

हवाले

“कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान, हमारी लोकल अर्थव्यवस्था की बहाली में योगदान देने वाले निजी निवेश को प्रोत्साहित करने की, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की योग्यता को बढ़ाने के कई तरीके पेश करता है। ब्रैम्पटन, अवसरों का शहर और सी.आई.पी. तैयार करना, हमारे लक्ष्यों को पूरा करने का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जब हम महामारी में अर्थव्यवस्था की बहाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारी इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रेटजी के अंतर्गत, काउंसिल ने सी.आई.पी. को लोकल कारोबारियों की मदद के लिए निवेश के मुख्य कार्यों में से एक के तौर पर पहचाना है। वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। जैसे-जैसे ब्रैम्पटन के कारोबारी सफल होते हैं, हम सभी की जीत होती है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), वार्ड्स 3 और 4, रीजनल काउंसलर और चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट कमेटी, चेयर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान, नेबरहुड्स को मजबूत बनाने के साथ-साथ, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने और हमारी खुद की गतिविधियों और मुख्य साझेदारियों के द्वारा कम्युनिटी को बहाल करने में मदद करेगा।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), वार्ड्स 7 और 8, रीजनल काउंसलर और वाइस-चेयर, प्लानिंग एंड डिवेलपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी का 2040 विजन, सिटी के श्रमिक बल में वृद्धि करने की जरूरत को समझता है, जो कम्युनिटी में रहते और काम करते हैं। कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान, ऐसा स्थान बनने में ब्रैम्पटन की मदद करेगा, जो हमारी कम्युनिटी में अधिक ऑफिस संबंधी निवेश को आकर्षित करे और रोजगार संबंधी अधिक अवसर पैदा करे।”

- *पॉल विसेंट (Paul Vicente), वाईस 1 और 5, रीजनल काउंसलर और वाइस-चेयर; चेयर इकोनॉमिक डिवेलपमेंट कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“पूरा होने पर, कम्युनिटी इम्प्रूवमेंट प्लान संभावी गैर-आर्थिक और आर्थिक प्रोग्रामों का ‘टूलबॉक्स’ शामिल करेगा, जो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के लिए लंबी अवधि के लाभों को प्रोत्साहित करेंगे, जिनमें शामिल हैं, नौकरी पैदा करना, टैक्स राजस्व और निवासियों के लिए जीवन गुणवत्ता में संपूर्ण सुधार।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 700,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca